

सोलह सौ किलो नकली मिल्क केक बरामद

Saturday, December 07, 2019 10:10 AM



अलवर। आईजी जयपुर रेंज की स्पेशल टीम, थाना किशनगढ़बास व खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई कर 1600 किलो नकली मिल्क केक बरामद कर दो मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, गोवा, मुंबई आदि स्थानों पर नकली मावे की सप्लाई करते थे। जयपुर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि विशेष टीम ने भूर पहाड़ी मोठूका रोड स्थित आसू खां पुत्र रम्मू मेव के कारखाने पर दबिश देकर 310 किलो तैयार नकली मिल्क तथा इसके उपरांत ओदरा स्थित आसू खां पुत्र चांद खां के कारखाने पर दबिश देकर 1250 किलो तैयार नकली मावा तथा नकली मिल्क केक बनाने का सामान पकड़ा है। आशु खान पुत्र चांद खां के कारखाने से एफएसएसआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। इन दोनों कार्रवाई के अलावा विशेष जांच दल ने थाना सदर जिला अलवर में आजाद मेव तथा पापड़ी टोल नाका, थाना किशनगढ़बास में इदरीश मेव के कारखाने से पनीर के सैंपल भी लिए हैं जिसकी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे करते थे तैयार

गर्म पानी के अंदर स्किमड मिल्क पाउडर मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता था। जिसे भट्टी पर गर्म कर उसमें सूजी मिलाकर गाढ़ा किया जाता है। इस घोल के अंदर फैट के लिए पॉम ऑयल मिलाया जाता है। मीठा करने के लिए घोल में लिक्विड ग्लूकोज मिलाया जाता है तथा नींबू का सत देकर घोल को दानेदार बनाया जाता है। गर्म घोल को डिब्बे में भरकर पैकिंग की जाती है।

पचास हजार किलो नकली मावा बनाने की तैयारी थी

सेंगाथिर ने बताया कि मौके से 225 लीटर ऑइल, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 165 किलो स्किमड मिल्क पाउडर, 150 किलो चीनी तथा 750 किलो सूजी इत्यादि जब्त किए गए हैं। इस कच्चे माल से 50 हजार किलो से ज्यादा का नकली मावा तैयार किया जा सकता है।

Source: <https://www.dainiknavajyoti.net/rajasthan/fake-milk-cake-caught.html>